






















Table of Contents

अतिक्रमण करना		
अतिरिक्त मतलाब रखना		
	अपना	
अप्रचार		
उद्धृत करना		
	खुरचना	
	गंदी जगह	
	गठित करना	
	घेरना	
चार्ज		
	चिंता	
	छाती	
	टुकड़ा	
	ठानना	
	नमूना	

	नया	
	निपटाने	
निरीक्षण		
	पुराना	
	पोलिश	
प्रदान करें		
	बनाए रखना	
	बनावट	
	भिगोना	
	मशीन	
	रंग	
रक्षित		
	रहना	
वस्तु		

	शामिल होना	
	शिकायत	
	शुद्ध	
संबंधित होना		
स्पर्श		
	हटाना	
	हाथ बढ़ाना	

From:

<https://mantrakshar.co.in/> - Kshtrgyn

Permanent link:

<https://mantrakshar.co.in/doku.php/hi/object?rev=1644158811>

Last update: **2022/02/06 14:46**

